



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 25, सोमवार, शके 1941-सितम्बर 16, 2019  
Bhadra 25, Monday, Saka 1941-September 16, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT  
ORDER**

**Jaipur, September 11, 2019**

**F.10 (Elec) LSG/19/9854** .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Asind has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Asind. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer .

**By Order,**

Ujjwal Rathore,

**Joint Secretary to Government**

कार्यालय नगर पालिका आसीन्द जिला - भीलवाडा (राज.)

प्रोफोर्मा "क"

क्र.सं.	वार्ड सं.	वार्डों के सीमांकन का विवरण
01	एक	राजपुरा की झोपडिया में भागु/नारु भील से रतना/हरजी के मकान से होकर पप्पू/उगमा के मकान को लेते हुए राजू के मकान से होकर नन्दा/जग्गू के मकान से धापू के मकान से मांगूर/रतना से होकर कमला/गोपी से भागु/रामा से जगदीश कालबेलिया के मकान से रा.प्रा.वि. भवन तक एवं मंगरी के ऊपर समदी, उगमा, देबी, मोहन, सुगनी के मकान को लेते हुये अर्जुनपुरा की झोपडिया प्रथम में लादू गुर्जर के मकान से भंवर/केला के मकान से होकर तेजू/नारु के मकान से होकर नन्दा/नारु के मकान से होकर सुरेश के मकान से भागु के मकान से होकर नानू व पदमा भील के मकान से होकर देवा से नारु के मकान तक एवं अर्जुनपुरा की झोपडिया द्वितीय में लादु के मकान से घिसु के मकान से नानू के मकान से होकर पप्पू भील के मकान से गोपाल भील तक एवं कमला/पांचू भील के मकान तक एवं आमली खेड़ा की झोपडिया के पास भवानी सिंह के मकान से रा.उ.प्रा.संस्कृत विद्यालय से होकर आमली खेड़ा की झोपडिया में लादू/काना के मकान से विश्रान्तिगृह से माताजी के स्थान से जीतू/कालू के मकान से

		बाली/नंगजी से भैरू/रोड़ा के मकान से नारायण से बरदा के मकान से कंकू/धन्ना से नंदा/खेमा के मकान से केलाश के मकान से रामा/हुक्मा से खमाण के मकान से होकर कंकू/भोमा से रूपा के मकान से बाबू/हजारी से गोपाल/नानू के मकान से सामुदायिक शोचालय से सामुदायिक भवन की लाईन को लेते हुये भैरू/रतन के मकान तक एवं नंदा/भागु से सूरजमल से होकर जयराम के मकान तक एवं नंदा/हजारी के मकान से मोहन के मकान से घिसु भील के मकान से गणेश/कालू के मकान तक एवं गायत्री वाल्मीकि आश्रम तक ।
02	दो	भैरू खेड़ा बस्ती में सरस डेयरी भवन से प्रारंभ होकर उगमा/नंदा गुर्जर के मकान से होकर इसी भवन की लाईन में गली की समस्त आबादी को लेते हुए इसी लाईन में मेवालाल गुर्जर अध्यापक से होकर लालू/भूरा गुर्जर के मकान तक एवं मेवालाल गुर्जर के नोहरे से रामा/भागु के मकान से होकर नगजी के मकान से श्रवण/हजारी के मकान से लक्ष्मण/नाथू के मकान से जग्गू/भूरा के मकान के आस-पास की आबादी को लेते हुए चारभुजा मंदिर तक व तुलसीराम गुर्जर के मकान से भगवानदाश वैष्णव के मकान की लाईन को लेते हुये गली में हरिशंकर/घिसु गुर्जर के मकान से मेवा/रेमता के मकान से होकर जीवन/रेमता के मकान से हरदेव गुर्जर के मकान से होकर माना बलाई के मकान की लाईन से प्रह्लाद भील के मकान के आस-पास की कुलिया आबादी को लेते हुये उगमा भील के मकान से नंगजी भील के मकान से नाथू भील के मकान से नारायण गुर्जर के मकान तक एवं गिरधारी गुर्जर के मकान से बालू सिंह के मकान से रा.प्रा.वि. वार्ड न. 15 को लेते हुये मुख्य सड़क पर तेजू गुर्जर के मकान से नारायण/भंवर गुर्जर के मकान से ढोलियों के मकान की लाईन को लेते हुये मगना/कजोड खाती के मकान से होकर इसी लाईन को लेते हुये सामुदायिक भवन से रा.प्रा.वि. भैरू खेड़ा भवन तक ।
03	तीन	सामुदायिक भवन से प्रारंभ होकर विधुत ग्रीड से बालाप्रसाद छीपा के मकान वाली गली को लेते हुये शिवलाल सैन के मकान से भैरू सिंह/गिलू सिंह के मकानात को लेते हुये मुरादअली के मकान से जलदाय विभाग से रा.प्रा.वि. आदिवासी भवन को लेते हुये छगन गवारिया के मकान से सत्यनारायण नाई के मकान से होकर भीम रोड पर मनोहर सिन्धी के मकान से होकर गोल बड के आस-पास की कुलिया आबादी को लेते हुये भंवर चोरड़िया की दुकानों से होकर गाडोलिया बस्ती को लेते हुये राजू सिन्धी की दुकानों से भगवान सिंह, प्रभु/शंकर लाल शर्मा के मकान से नगर पालिका पुस्तकालय तक एवं भीम रोड पर हरिदास की दुकान से होकर अमृत भारती पब्लिक स्कूल से होकर अनिल बाफना के मकान की लाईन को लेते

		हुये रा.बा.उ.मा.वि. को लेते हुये दिलीप सिन्धी के मकान से गोपाल सिंह, धन सिंह के मकान तक एवं लक्ष्मण सिंह के मकान से अब्दुल अय्यूब के मकान से नयी कृष्णा पब्लिक स्कूल से सिकंदर के मकान के आस-पास की कुलिया आबादी को लेते हुये भंवर लाल व्यास के मकान की लाईन को लेते हुये मुस्ताक अहमद शैख के मकान से छतरियो तक एवं गोपाल सोनी के मकान से होकर मोहन लाल गंवारिया के मकान से होकर सुरेश जयसवाल के मकान के आस पास की कुलिया आबादी को लेते हुये शम्भू लाल वैष्णव के मकान की लाईन को लेते हुये तेजाजी के स्थान से किशन लोहार के मकान से बापू सिंह के मकान तक एवं बुन्दू मोहम्मद व नसीर के मकान से चुन्नी सिन्धी के मकान से बालचंद वर्मा के नये मकान से होकर जगदीश टेलर से होकर बिहारी सोनी के मकान से होकर भारतीयजी की गली में मोहम्मद हुसैन शैख के मकान तक ।
04	चार	भारतीय जी के मकान की गली मे गोखरू के नोहरे से सेंट्रल कॉर्पोरेटिव बैंक व सिंचाई विभाग भवन से नर्सिंह द्वारा से ऋतूम्बरा स्टेशनर्स से शांति लाल बणुट के मकान के पास एटीएम से प्रारम्भ होकर प्रकाश चौधरी के मकान से होकर गणेश महेता के मकान से रोडमल गोखरू के मकान से होकर छिपा समाज के मंदिर से मदनलाल ढोली के मकान सेहोकर सम्पूर्ण ढोलियो की गली को लेते हुए सुवालाल चोरडिया के मकान से भंवर लाल चोरडिया के मकान से होकर नोरत मल कांठेड के मकान से होकर हफीज मोहम्मद के मकान तक एवं नजीर मोहम्मद शेख के मकान से होकर मस्जिद की लाईन की लेते हुये इमामुदीन के मकान से होकर जमील सोरगर के मकान से होते हुये नसीरुदीन के मकान से पहले तक।
05	पांच	नसीरुदीन के मकान से होकर कलाम के मकान से होकर गन्नी मोहम्मद के मकान से होकर अहमद शेख के मकान से होकर सईद के मकान की लाईन को लेते हुये मुख्तियार के मकान से आरीफ के मकान से होकर नजीर मोहम्मद के मकान से बरकत के मकान से होकर सफी शेख से होकर सहजाद के मकान तक एवं गनी के मकान से सलीम के मकान से होकर महबूब के मकान से एवं मोइनुदीन के मकान से होकर मुस्साअली डायर के मकान से होकर छितर के मकान से राणे खां के मकान से होकर मुन्ना खां के मकान तक सकर खां के मकान से प्रारंभ होकर सफी मोहम्मद शेख के मकान से गनी मोहम्मद के मकान से सरीफ मोहम्मद डायर के मकान से अनिश शेख के मकान से शौकत के मकान से नसीरुदीन के मकान से होकर रमजान नीलगर के मकान से होकर मुस्ताक फोजदार के मकान की लाईन को लेते हुये शब्बीर मोहम्मद छिपा के मकान की

		लाईन को लेते हुये खलील मोहम्मद कुरेशी के मकान से जंगबहादुर के मकान के पास की गली की कुलिया आबादी को लेते हुये मुमताज हुसैन पठान के मकान तक।
06	छः	दरगाह रोड पर अब्दुल कादर शेख के मकान की लाईन को लेते हुये गन्नी मोहम्मद पठान से होकर लुकमान के मकान से आजाद पठान के मकान तक एवं ईदगाह से दरगाह की लाईन को लेते हुये शमशान घाट व कब्रिस्थान से होकर आजाद हुसैन पठान के मकान से नईमजहां के मकान से हनीफ मोहम्मद के मकान से सकील पठान से सरीफन/चंद खां पठान के मकान तक एवं अजिमुदीन के मकान से प्राम्भ होकर कमरुदीन एक मकान से अनार बैग के मकान को लाईन को लेते हुये माणक कावड़िया के मकान से होकर प्रेम चंद कांठेड से बड़ी पोल के अन्दर दयाराम गुर्जर से घिसु मोहम्मद के मकान से राजेंद्र चोधरी के मकान तक ।
07	सात	उदा गुर्जर के मकान से भंवर कांठेड के मकान से भगवती लाल वर्मा के मकान तक व खेमा गुर्जर के मकान से ईदू नीलगर के मकान की लाईन को लेते हुये भंवर रांका के मकान की लाईन से राजपूतो की गली को लेते हुये तेजमल बाफणा के मकान से होकर लक्ष्मीलाल दुगड़ के मकान से देबीलाल बाफणा के मकान की लाईन को लेते हुए बाफणा की दुकान से सुराणा बिल्डिंग से होकर सोनी की दुकान को लेते हुए पुराना बाजार में देवनारायण मंदिर से भंवरलाल गोखरू के मकान वाली गली को लेते हुए मदनलाल कावड़िया के भवन से होकर जैन धर्म स्थान की लाईन को लेते हुए लक्ष्मीलाल रांका की गली को लेते हुए दुगड़ो की पोल की सम्पूर्ण आबादी को लेते हुए देवालाल दुगड़ की दुकान से होकर रज्जाक मन्सूरी के मकान तक एवं तेरापंथ सभा भवन न. 02 से प्रारम्भ होकर पास वाली गली व जाकिर के मकान से होकर इसी लाईन को लेते हुए संपत रांका के मकान को लेते हुये सुनारों के मकान वाली सम्पूर्ण आबादी को लेते हुए रांका पोल से होकर जमनालाल सोनी के मकान से बालचंद चौरड़िया के भवन से भेरू/कन्हैया सोनी के मकान तक ।
08	आठ	पालिका के दुकान एक से पंकज प्रेस से होकर पुराना पालिका भवन से कर्नावट के मकान से होकर मेहता के मकान से होते हुये नानुराम शर्मा के मकान तक व नगरपालिका भवन से कांग्रेस कार्यालय तक व देबीलाल शर्मा के मकान से हायर सेकेंडरी स्कूल से शिवालय से होकर सार्वजनिक प्याऊ से शिक्षक भवन तक व गाँधी चौक में प्यारचंद चौरड़िया के भवन से शुरु होकर तेरापंथ सभा भवन न. एक को लेते हुए देबी सिंह सिशोदिया के भवन से मादावतो के मोहल्ले की आबादी

		को लेते हुये गणेश गेस्ट हाउस से डायर की दुकान की लाईन को लेते हुये भेरू खटीक के मकान की लाईन से होकर कावड़िया भवन तक व खारी नदी से होकर पी.डब्ल्यू.डी. कार्यालय तक व नेगड़िया रोड पर मुरादअली नीलगर के मकान से मुंशी के मकान की लाईन को लेते हुए बड के पास मोजदीन मंसूरी के मकान व दुकान की लाईन को लेते हुये पोखर गुर्जर के मकान तक नेगड़िया रोड के पास मुकेश डांगी के मकान से प्रारम्भ होकर बाबू उस्ताद के मकान को लेते हुए शरीफ/चाँद मोहम्मद बिसायती तक एवं जाकिर हुसैन से अब्जी के मकान को लेते हुये शरीफ पठान के मकान को लेते हुये रईसा बानू तक (खारी नदी तक)।
09	नो	(खारी नदी से पहले) सतार मोहम्मद के मकान से प्रारम्भ होकर इमामुदीन के मकान से सत्यनारायण ढोली के मकान से होकर गणेश स्मारक से आजाद भडभूजा तक एवं लादू गुर्जर के मकान से गैस एजेंसी से होकर मनसुख गुर्जर की आराजी की सम्पूर्ण आबादी को लेते हुये किशन लोहार की आरामशीन को लेते हुये महाप्रज्ञ कॉलेज के सम्पूर्ण परिसर को लेते हुये इकबाल भडभूजा के मकान से रोशन संचेती की आराजी की सम्पूर्ण आबादी को लेते हुये सामने की लाईन मे प्यार चंद खटीक के मकान से होते हुये मोजदीन के मकान से चाँद मोहम्मद के मकान से रफीक मंसूरी के मकान से सरिफ के मकान से युसूफ के मकान से होकर हैंडपंप से गुलजार मोहम्मद मंसूरी ईन्ट-भट्टा वाले के मकान तक एवं वर्धमान आयल मिल से होकर छगन खटीक के मकान से संपत खटीक के मकान से रामचंद्र खटीक से शंकर/बालू खटीक राधेश्याम खटीक के मकान से बालू खटीक के मकान की लाईन को लेते हुये रतन साँनेरी के मकान की लाईन को लेते हुये पहाड़िया भवन को होकर महावीर जिनिंग फैक्ट्री को लेते हुये रामजश पारासर के मकान से मजिस्ट्रेट आवास तक एवं भागीरथ खटीक इट भट्टा वाले के मकान से पुलिस थाना होकर मेवाडा की दुकान से होकर धर्मकांटा होकर रा.उ.प्रा.वि. गोविन्दपुरा विद्यालय को लेते हुये न्यायालय भवन होकर महाराजपुरा का देवरा पर मोहन खटीक के मकान तक।
10	दस	दांतडा बांध नहर के पास हीरा खटीक के मकान से राजलक्ष्मी कॉलोनी से नहर के बीच की आबादी को लेते हुये रामपाल खटीक के मकान से गणेश बलाई के मकान से एस.सी.डी.सी. दुकानो से भंवर/हरलाल के मकान से होकर भेरू/पेमा खटीक के मकान एवं जगदीश बैरवा के मकान से नाथू खटीक के मकान के पास की गली को लेते हुये नानु खटीक के मकान से प्यारा खटीक के मकान की लाईन को लेते हुये नाथू खटीक के मकान की लाईन को लेते हुये गली के अन्दर रतन/भोला खटीक के मकान से भागु/मोहन खटीक के मकान से धन्ना खटीक के मकान से

		ए.सी.डी.सी. की दुकानों तक एवं दिनेश खटीक के मकान से प्रारम्भ होकर इसी लाईन के मकानों को लेते हुये जगदीश खटीक से नानु बलाई के मकान तक एवं कंकू बाई खटीक के मकान की लाईन को लेते हुये प्रभू/सुखा खटीक के मकान से सोहन लाल रेगर के मकान तक एवं अन्दर की गली की आबादी को लेते हुये रामप्रसाद बैरवा के मकान तक ।
11	ग्यारह	पन्ना रेगर के मकान से होकर गोपाल खाती के मकान से बबलू लोहार के मकान से अजीज मोहम्मद के मकान को लेते हुये अब्दुल शकूर के मकान से सामुदायिक केंद्र से होकर देवनारायण छात्रावास भवन तक एवं मोहन लोहार के मकान से बालाजी, शनि महाराज मंदिर से माताजी के मंदिर से बागरिया के मकान कि कुलिया आबादी कोलेते हुये पानी की टंकी के आस-पास स्थित कुलिया आबादी को लेते हुये हरिजनों के मकान को लेते हुये ,चमनपुरा रोड पर रामदेव खटीक के मकान तक व उगमा बलाई के मकान की लाईन की आबादी को लेते हुये मुकेश बलाई के मकान को लेते हुये बलाई समाज के नोहरे तक एवं भंवर पायक के मकान से शंकर खटीक के मकान से बालू बलाई के मकान तक एवं कनीराम बलाई के मकान से लादू रेगर के मकान से नंदा रेगर से बालू/सोराम रेगर के मकान से सुवा/अमरा खटीक के मकान तक एवं छोगा खटीक मकान से देबी लाल खटीक के मकान से जगदीश बैरवा के मकान से कालू बैरवा के मकान तक ।
12	बारह	गोविन्दपुरा बस्ती में सोहनी देवी/ननु चमार के मकान से प्रारम्भ होकर मांगी/अमरचंद चमार के मकान की लाईन को लेते हुये नारायण पायक के मकान से जगदीश पायक के मकान तक एवं रामदेव जी के मंदिर से सामुदायिक भवन तक एवं शाहपुरा रोड पैर इसी लाईन को लेते हुये लादूदास व भेरू गुर्जर के मकान की लाईन की आबादी को लेते हुये देवी लाल तेली के नोहरे तक तथा इसी लाईन के मकानों को लेते हुये मदन/रूपा लोहार के मकान तक एवं रोडमल/गोपी लोहार के मकान से शाहपुरा रोड पर मिश्रीलाल, गणेश कुमावत के मकान तक एवं इस मकान के पास की गली में नानु भील, भेरू लाल लोहार के मकान से सरजू देवी भील के मकान से अर्जुन भील के मकान से पथवारी तक व अम्बालाल,शम्भूलाल गुर्जर के मकान से प्रारम्भ होकर शम्भू खाती के मकान तक एवं इस मकान के पीछे लादू लाल तेली का मकान एवं नायक का मकान तथा कालबेलिया बस्ती को लेते हुये आंगनबाड़ी भवन तक एवं रामपाल रेगर के मकान से भंवर/छोगा खटीक के मकान तक ।
13	तेरह	सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र में पशु आहार फैक्ट्री से ग्राइंडिंग एवं गुलजार ईट भट्टा से प्लास्टिक फैक्ट्री से होकर सम्पूर्ण औद्योगिक इकाई क्षेत्र को लेते हुये शाहपुरा रोड

		की लाईन को लेते हुये हीरा रेगर के मकान तक एवं चमन पूरा बस्ती की सम्पूर्ण आबादी एवं शाहपुरा रोड पर श्री सवाईभोज चार दीवारी के बीच सभी मकानात को लेते हुये घिसु लोहार के मकान से सोहन कुमावत के मकान से होकर अर्जुन मोची के मकान तक एवं श्री सवाई भोज मंदिर की आबादी को लेते हुये कृषि उपजमंडी से गणेश आयल मील से सिचाई विभाग होकर केरिया खेडा रोड की सम्पूर्ण आबादी को लेते हुये युसूफ की दुकान की लाईन से होकर नदी के किनारे से होकर श्मशान घाट से रा.प्रा.वि. वार्ड न. 08 को लेते हुये पानी की टंकी से होकर रिलाइंस पम्प से मनोहर सिंह के भवन तक एवं सामने रामदेव जी के मंदिर के पास मोहन, सोहन, मदन माली की आबादी को लेते हुये रमा माली के मकान से भंवर सुथार के मकान से होकर जेठू बलाई से शिव जी वैष्णव से बालू/उंकार बलाई के मकान से कँवरलाल बलाई के मकान वाली गली को लेते हुये बालू रेगर के मकान से भंवर रेगर के मकान तक ।
14	चोदह	हरिजन बस्ती में रामपाल हरिजन के मकान से प्रारंभ होकर सुरेश/देवा के मकान से किशन/मिठू लाल के मकान से बगसू/सुवा के मकान से मिश्रीलाल के मकान से नैना/चोथू के मकान से राधाकिशन के मकान के पास की गली की कुलिया आबादी को लेते हुये कामड के मकान से नानु रेगर के मकान से रतन व सोहन रेगर के मकान तक एवं रेगर मोहल्ला में गजानंद/भैरू रेगर के मकान से होकर लाईन को लेते हुये बालचंद रेगर के मकान से रामदेव मंदिर से शिवलाल नट के मकान तक एवं नाहर सिंह माताजी मंदिर से होकर लक्ष्मण बलाई के मकान से कालू बैरवा के मकान तक व मांगी लाल रेगर के मकान से खेमराज के मकान से होकर रामेश्वर व मोहन रेगर के मकान से होकर पोखर रेगर के मकान तक ।
15	पंद्रह	आसन से डालू बलाई के मकान से गोपाल मोची के मकान से होकर मुनिर गन्नी की दुकान को लेते हुये अब्दुल अजीज की दुकान से अब्दुल हमिद के मकान से होकर सब्बीर व सदरुद्दीन के मकान को लेते हुये मुस्ताक अहमद के मकान की लाईन को लेते हुये मुन्नीरगनी एडवोकेट के मकान से होकर नन्दलाल अहीर से गीता देवी शर्मा के मकान तक व मोहम्मद हुसैन गार्ड के मकान से होकर अनवर के मकान से होकर रफीक अहमद के मकान से होकर मुस्ताक अहमद के मकान तक व हसनूदीन के मकान से होकर अब्दुल अजीज के मकान से होकर मोइनुद्दीन के मकान से होकर बदरुद्दीन के मकान से कर्नावट के नोहरे से होते हुये एवं सुरेन्द्र तंवर के मकान से मालियों की सराय के पास वाली गली को लेते हुये भैरू माली के मकान से छाउ माली के मकान तक व प्रभु लाल रेगर के मकान से होकर मनीष मेवाडा के मकान तक ।

16	सोलह	माली मोहल्ले में भैरुलाल शर्मा के मकान से होते हुये मोतीलाल छड़ीदार के मकान से बिहारी लाल शर्मा के मकान से शंकर लाल शर्मा के मकान से शम्भू सिंह के मकान से राजेंद्र मेवाडा के मकान से होते हुये तेजमल संचेती के नोहरे से देवनारायण मंदिर से भंवर लाल शर्मा के मकान से होते हुये मदन माली के मकान तक व बालू माली के मकान से होकर मंदिर के पीछे की गली को लेते हुये हेमराज माली के मकान से हाथी वाले मंदिर से रा.प्रा.वि. से माधुलाल मेवाडा के मकान तक विनोद मेवाडा, मोहन सिंह सोलंकी के मकान से प्रारंभ होकर लादु/देबी तेली के मकान तक व चांदमल मेवाडा से एयरटेल टावर से हरक चन्द साहू से होकर कैलाश शर्मा के मकान से होकर भोमराज तेली से गोवर्धन तेली के मकान से होकर देबीलाल मेवाडा के मकान से होकर रामा/हजारी तेली के नोहरे से होकर सोहन लाल साहू के मकान से बी.एस.एन.एल. टावर से होकर बालिका मिडिल स्कूल के पीछे की आबादी को लेते हुये गोपाल, धन्ना, लालू कुमावत के मकान से होकर श्रवण लाल साहू के मकान से होकर मिठू तेली के मकान से सुखपाल के मकान से होकर मोडीराम के मकान से लाईन को लेते हुये नानुराम के मकान से देवीलाल तेली के मकान तक ।
17	सत्रह	संपत तेली की चक्की से बावड़ी होते हुये शिव मंदिर से जयसवाल के मकान से होकर चांदमल कोठारी के मकान तक व पारसचन्द मोची के मकान से हनुमान मंदिर होकर भगवती लाल जीनगर के मकान से होकर लाईन को लेते हुये लादूलाल लखारा के मकान तक रामदयाल लखारा के मकान से श्रीमाल भवन की लाईन से होते हुये नाथू नाई के मकान से लक्ष्मण नाई के मकान से होकर डालचंद बुरड से गणपत/चन्द्र शेखर शर्मा के मकान से लक्ष्मण सिंह के मकान को लेते हुये गौतम चौधरी के मकान से तंवर मोहल्ला से संचेती भवन से होकर चांदमल दुगड के मकान से रांका की पौल को लेते हुये दर्जी मोहल्ले को लेते हुये बजरंगदास के मकान तक राठोडजी के मंदिर से दुगड भवन से शीतला माता मंदिर से मेवाराम तेली की दुकान तक ।



18	अठारह	<p>शांतिलाल छीपा के मकान से हीरा सिन्धी के मकान की लाईन को लेकर शेखावत भवन होकर इसी लाईन को लेते हुये लादू/उंकार तेली से होकर सोहन खाती के मकान से शिवसिंह तंवर के मकान से होकर शिवनारायण शर्मा के मकान की लाईन को लेते हुये सोहन शर्मा के मकान को लेते हुये प्रभु लाल सुथार के मकान तक एवं मिश्री लाल साहू के मकान से कैलाश शर्मा के नोहरे को लेते हुये रघुवीर शर्मा के मकान से रामप्रसाद मेवाडा के मकान से महावीर वैष्णव के मकान से रामेश्वर माली के मकान से हरीश सिन्धी व फूलचंद जीनगर के मकान से होते हुये जगदीश सुथार के मकान से मदन लाल शर्मा से होकर रामप्रसाद शर्मा से भागीरथ खाती से भगवती लाल जीनगर के मकान से सोहनदास के मकान से होकर गोपाल तेली के नोहरे से मांगीलाल कुमावत के नोहरे तक व इसी गली की आबादी को लेते हुये तेजमल शर्मा के मकान तक व मांगीलाल कुमावत के मकान से होकर जगदीश सराधना से माधु खाती के मकान तक व श्यामलाल शर्मा के मकान से भैरु शर्मा के मकान के आस-पास की आबादी को लेते हुये नानुराम शर्मा, नानुराम कुमावत के मकान से डूंगर सिंह के मकान से दिनेश टेलर के मकान से विनायक हीरो शोरूम तक ।</p>
19	उन्नीस	<p>हगामीलाल मेवाडा के होटल से होकर गणेश, गोपाल मेवाडा के मकान से रामेश्वर माली के मकान से रामस्वरूप के मकान से राजमल साहू के नोहर से प्रेम माली के मकान से होकर गोपाल शर्मा के मकान तक एवं ब्राहमण मोहल्ला में उगमा तेली के मकान से प्रारम्भ होकर मंदिर की लाईन को लेते हुए नाथू सिंह पंवार के मकान तक एवं राजपूतो के चौक में लक्ष्मण सिंह राठौड के मकान से प्रारम्भ होकर राजेंद्र सिंह, बसंत सिन्धी के मकान से गोपाल सिंह चौहान के मकान की गली को लेते हुये शिवपाल मोची की लाईन को लेते हुये जगदीश नाई के मकान तक व धर्मीचंद तेली की दुकान से रमेश छिपा के मकान से होते हुये उदयलाल पांडा के मकान से बड़ा मंदिर होकर छगनलाल गोखरू के भवन से होकर सूरज नोलखा के मकान से नाहर सिंह के मकान से निजामुद्दीन के मकान से होते हुये रतन चौरड़िया के मकान से होकर जयसवाल के मकान तक व तेजमल/हीरा लाल रांका के मकान से लादूलाल दुगड़ के मकान से होकर जेठमल दुगड़ के मकान से एस.बी.बी.जे. तक व हरकचंद गोखरू के मकान से मनोहर बाफणा के मकान से दांतडा वाले गोखरू के मकान तक एवं सुराणा भवन होकर डॉ.मांगीलाल शर्मा के मकान तक व कन्हैयालाल नाई के मकान से अशोक कुमार पारिक के मकान से होकर पोस्ट ऑफिस होकर महावीर इंटरनेशनल धर्मशाला से होकर गार्गी हॉस्पिटल से ओमप्रकाश सिन्धी के मकान तक।</p>

20	बीस	<p>शांतिलाल गोखरू के गोदाम से सिन्धी कॉलोनी की कुलिया आबादी को लेते हुये झुलेलाल मंदिर से महावीर मेवाडा ज्ञानचंद सिन्धी के मकान से होकर महावीर जोशी से गोतम कोठारी के मकान तक एवं नगरपालिका आश्रय स्थल को लेते हुये भेरूलाल मेवाडा व देबीलाल मेवाडा के मकान को लेते हुये सीताराम वैष्णव की दुकान से राजमल गोखरू के मकान तक व चन्दनमल बाफणा के मकान से मांगीलाल वैष्णव की दुकान तक एवं अजीत चौधरी के मकान से गोतम बडोला के मकान से होकर मिडिल स्कूल से होकर कन्हैया लाल सुरेन्द्र दुगड़ के मकान से देबी लाल तांतेड के मकान से शांतिलाल बम्ब के मकान वाली गली की आबादी को लेते हुये रोशन लाल रंका के भवन से प्रकाश चौरडिया के मकान से अशोक पारीक के मकान तक व चोपड़ा के मकान से रतन सोनी के मकान की लाईन को लेते हुये चंचल देवी हिंगड़ के मकान एवं चिकित्सालय की कुलिया आबादी को लेते हुये गोपालदास के मकान से तेजमल रंका के मकान से कन्हैया लाल, सुरेन्द्र दुगड़ के नोहरे तक एवं गणेश लाल चौरडिया के मकान से होकर डॉ. मुरलीधर शर्मा के मकान तक एवं लादूलाल कोठारी के मकान से प्रारम्भ होकर भोपाल कोठारी के मकान तक कर्नावट के मकान से होकर दुर्गाप्रसाद अग्रवाल के मकान से देबीलाल पिपाडा के मकान से सुरेन्द्र नोलखा बराणा वाले के मकान तक ।</p>
21	इक्कीस	<p>महावीर भोजनशाला से जैनस्थानक से होते हुये भंवर लाल बम्ब के मकान तक एवं पाबू सिंह की दुकान से उपरली हवेली की सम्पूर्ण आबादी को लेते हुये नाहटा भवन से मेहता के मकानों से होकर घेवरचंद, शम्भूलाल गोखरू के मकान से मुरलीधर सोनी के मकान की लाईन को लेते हुये पारसमल चौरडिया के मकान की लाईन को लेते हुये श्रीमाल वाटिका न. 01 से दलपत कावडिया के मकान की लाईन को लेते हुये सुरेश रंका के मकान तक व आस-पास की आबादी एवं रामगोपाल तोषनीवाल के मकान की लाईन को लेते हुये आस-पास की आबादी को लेते हुये एवं बडोला भवन से होते हुये आस-पास की आबादी को लेते हुये परसराम सोनी के मकान की लाईन से होते हुये आस-पास की आबादी को लेते हुये श्री माल वाटिका न. 01 एवं सम्पूर्ण श्री माल कॉलोनी से होकर घनश्याम पंडा के मकान से होकर शम्भूलाल गन्ना के मकान से होकर सुखाडिया मार्केट होकर पंचायत समिति परिसर की कुलिया आबादी लेते हुये पंचायत समिति दुकान से होकर प्रतापनगर की कुलिया आबादी लेते हुये रणछोड़ सिंह के मकान से गोवर्धन सिंह के मकान वाली आबादी को लेते हुये तेजवीर सिंह के मकान से बैंक ऑफ बडोदा से होकर गोपाल सिंह के मकान से होकर बट्टी सिंह के मकान से शीतल सिन्धी के मकान तक ।</p>

22	बाईस	<p>सुवालाल तेली के मकान से प्रारंभ होकर रामपाल साहू के मकान से प्रहलाद शर्मा के मकान से शिवराज अरोड़ा के मकान से एवं देबीलाल सोनी के मकान से हगामीलाल मेवाडा के मकान से रमेश कुमार टेलर महावीर कुमार टेलर के मकान की लाईन को लेते हुये पप्पू छिपा के मकान तक एवं हीरा लाल कुमावत के मकान से होकर मोहन सिंह के मकान एवं इसके पीछे रंगु गुर्जर के मकान तक एवं सत्यनारायण छिपा के मकान की लाईन को लेते हुये मुरली सोनी के मकान तक एवं रामचंद्र तेली की मकान की लाईन को लेते हुये तेजमल छिपा के मकान से होते हुये लादू छिपा के मकान से होकर देबी सिंह सांचोरा के मकान से संग्राम सिंह के मकान से शांति लाल सेन के मकान तक एवं लादूलाल गुर्जर के मकान तक हरजीराम गुर्जर मकान की लाईन सेरमेश चन्द्र टेलर के मकान से होते हुये अहमदनूर पठान के मकान से दलपत गुर्जर के मकान वाली लाईन मे चांदमल मेवाडा के शोरूम तक एवं सामने लाखारो की दुकानों से श्री देवनारायण होटल होकर कैलाश गंवरिया के गोदाम से होते हुये रावत के मकान की लाईन को लेते हुये सत्यनारायण सुखवाल के मकान तक एवं जसवंत सिंह सिसोदिया के मकान से अमित गुर्जर के मकान से बाल शिक्षा निकेतन स्कूल से रणवीर सिंह व रतन सिंह के मकान लेते हुये दुर्गा सिंह से दिनेश सोनी के मकान की लाईन होते हुये नारायण रावल के मकान तक एवं देबी लाल सेन के मकान की लाईन को लेते हुये दलपत सिंह तंवर के मकान के आस पास के मकानों को लेते हुये राधेश्याम ढोली के मकान की लाईन को लेते हुये नानी बाई के मकान से होते हुये सोनी के मकान की लाईन को लेते हुये शांतिलाल तंवर के मकान के आस-पास के मकानों को लेते हुये दिनेश सेन के प्लाट से हीरो शोरूम की लाईन को लेते हुये के ओम मेवाडा के मकान से मदन सांचोरा व राधेश्याम धोबी के मकान की सम्पूर्ण लाईन को लेते गोपी कुमावत के मकान से भेरू धोबी के मकान की लाईन से होकर सम्पूर्ण आबादी होते हुये कल्याण सिंह तंवर के मकान से महिंद्रा शोरूम तक व तहसील कार्यालय व निवास भवन से साहू प्रोपर्टी पॉइंट से मांगीलाल कुमावत की दुकान से होकर अब्दुल रहमान के मकान से होकर पीछे सम्पूर्ण आबादी व गोविन्दसिंह तंवर के मकान से नन्दलाल शर्मा के मकान तक।</p>
----	------	--

23	तेईस	बाजुन्दा रोड पर नन्दलाल शर्मा की दुकान के आगे से प्रारम्भ होकर गीता खाती की दुकान से सुवा नायक के मकान से होकर संतपाल स्कूल तक व सामने की आबादी को लेकर नायक के मकान से ढोलियों की आराजी की आबादी को लेते हुये रामा बैरवा के मकान की गली लेते हुये वन विभाग को लेते हुये कुंदन नायक के मकान से दुर्गालाल बलीवाल के मकान तक बाजुन्दा रोड से जगदीश कुमावत के मकान से प्रारम्भ होकर घिसु खाती के मकान से होकर रामा तेली के मकान से मोहन मेवाडा के भवन से मदन सिंह के मकान से राम सिंह के मकान जुगराज मेवाडा के मकान से ओम छिपा के मकान से होकर सुखानाथ के मकान से होकर मुबारीक पठान के मकान से अल्लाबक्ष के मकान से कैलाश सेन के मकान से बाबु लाल गंवारिया के मकान से क्रय-विक्रय समिति से नारायण सिंह के मकान से कल्याण सिंह के मकान से उदयलाल टेलर के मकान से नूरमोहम्मद के मकान से होकर अरोड़ा भवन से गन्ना के मकान से रतन बाफणा के मकान से भंवर दर्जी के मकान से घनश्याम छिपा के मकान से पीरचंद सिंघवी के मकान तक ।
24	चौबीस	सामुदायिक भवन गाँधी ग्राम से होकर गोपी कुम्हार के मकान से लादू कुम्हार के मकान से नारायण रावल के मकान से होकर रतना/चतरा गंवारिया के मकान से गोपी गुर्जर के मकान की लाईन को लेते हुये सिद्धार्थ स्कूल से होकर देवानाथ के मकान से होकर उगमा गुर्जर के मकान से होकर देवा माली के मकान से होकर मेवा गुर्जर के मकान की लाईन को लेते हुये सांवर लोहार के मकान तक एवं बाबु लाल नाई के मकान से बंशी लाल नाई के मकान से कुम्हार के मकान से राजेंद्र पेंटर के मकान के आस-पास की आबादी को लेते हुये ओमप्रकाश सेन के मकान से नाथूनाथ योगी के मकान से होकर सरगरा के मकान से गौतम जैन के मकान तक विधुत ग्रिड रोड पर भंवर सिंह के मकान से रामसिंह के मकान से घनश्याम/भंवर लाल छिपा के मकान तक एवं भीलो की झोपड़ियों में मदन भील अध्यापक के मकान वाली लाईन को लेते हुये बड की पास वाली कुलिया आबादी लेते हुये रामसिंह कुए तक ।
25	पच्चीस	भीलो की झोपड़ियों में भेरू लाल भील के मकान से प्रारंभ होकर बालू भील के मकान से होकर गोपाल भील के मकान से भेरूलाल भील के मकान तक एवं बालू के मकान से कैलाश मकान से होते हुये जग्गू के मकान वाली लाईन सोहन के मकान तक व मांगू के मकान से नोसर के मकान तक व सोहन के मकान से मेवा के मकान तक भागु के मकान से होकर रायमल के मकान तक व जग्गू के मकान से सोहन के मकान से मांगू के मकान से होकर लादू भील के मकान तक

		एवं भंवर भील के मकान से होकर रामा के मकान से होकर केला भील के मकान तक व नंदा/गोकल की मकान की लाईन मे होते हुये देबी भील के मकान से तुलछा भील के मकान तक एवं डेयरी तक सम्पूर्ण भीलो की झोपड़ियो की आबादी तक ।
--	--	--

अधिशायी अधिकारी

नगर पालिका आसीन्द

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।